

यीशु को खोजना

गॉस्पेल



“ये वही शास्त्र हैं जो मेरे बारे में गवाही देते हैं” जॉन 5:39

विजयी प्रकाश

Finding Jesus

Gospels

Copyright © 2025 Laura Baca

Second Printing

All rights reserved.

For questions regarding distribution or training, or to
request permissions, contact the publisher at
lbaca@victoriouslight.org


Illustrations by Alexander Skibelski

Cover art by Lesia Talbert

Printed by Victorious Light

VictoriousLight.org

ISBN 978-9914-36-065-3



9 789914 360653







यीशु राजा

यीशु कौन है और बाइबल वास्तव में किस बारे में है?

बाइबिल एक ऐसी कहानी है जो यीशु की ओर ले जाती है। यीशु बाइबिल के हर भाग के केंद्र में हैं।

यीशु अल्फा और ओमेगा, शुरुआत और अंत है। वह पूरी बाइबल में एक कालीन की तरह बुना हुआ है।

भगवान ने दुनिया को शब्दों से बनाया है। उसने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया (उत्पत्ति 1:28) और मनुष्य का उद्देश्य स्वर्ग के राज्य, या परमेश्वर के राज्य के हिस्से के रूप में पृथ्वी पर शासन करना और शासन करना था।

जब आदम और हव्वा ने उस पेड़ का फल खाया, तो पाप संसार में प्रवेश कर गया। मनुष्य ने शासन करने का अपना अधिकार खो दिया; उसने स्वेच्छा से अपना क्षेत्र दुश्मन को सौंप दिया था।

लेकिन भगवान के पास छुटकारे की एक योजना थी

यीशु हमेशा योजना थे। वह "दुनिया की नींव से मारे गए भेड़ का बच्चा" था। (प्रकाशितवाक्य 13:8) वह उत्पत्ति 3:15 में परमेश्वर द्वारा बताए गए "वंश" थे। पाठक बाइबिल के माध्यम से इस "बीज" का अनुसरण करता है, उस व्यक्ति को देखता है और उसकी प्रतीक्षा करता है जो आएगा और लोगों को बचाएगा और पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य को बहाल करेगा।

यीशु की भविष्यवाणियाँ

पूरे शास्त्र में हम बार-बार विषय और प्रतिमान देखते हैं जो सभी यीशु की ओर इशारा करते हैं। सदियों से इस "वंश", इस मसीहा के बारे में भविष्यवाणी करने वाले शब्द बोले जाते थे, जो अपने लोगों को बचाने के लिए आएगा। भविष्यवाणियाँ छिपी हुई थीं और रहस्यों में बोली गई थीं (1 कुरिन्थियों 2:6-8) ताकि इस दुनिया के शासक उसके आने को रोक न सकें।

शब्द

भगवान शब्द ने दुनिया को शब्दों के साथ बनाया, और यीशु की सभी भविष्यवाणियों को शब्दों के माध्यम से होना था। सब कुछ एक रहस्य में भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन यह सब इस बात की ओर ले गया कि यीशु कौन होगा। लेकिन जब समय पूरा हो गया, तो ये शब्द एक साथ आए और बीज का निर्माण किया, जो एक कुंवारी (स्त्री का वंश) के साथ मिलकर परमेश्वर का पुत्र, वचन बन गया। (यूहन्ना 1:1)

यह शब्द, यीशु, अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से, मृत्यु और अंधेरे की रियासतों पर विजय प्राप्त की। उसने परमेश्वर के राज्य, स्वर्ग के राज्य को पुनर्स्थापित किया। हम उसके साथ मसीह के शरीर के रूप में शासन करते हैं। और हम उनके साथ इस जीवन में और आने वाले जीवन में शासन कर सकते हैं। (रोमियों 5:17,21)

यह पाठ्यक्रम, फाइंडिंग जीसस, बस यही करने के लिए बनाया गया है। वह उत्पत्ति से प्रकाशितवाक्य तक पाया जा सकता है।





इसे पहले पढ़ें!

सबक सिखाएं

यह मार्गदर्शिका प्रशिक्षक के लिए एक बाइबल अध्ययन है।

ये पाठ एक पटकथा के रूप में नहीं लिखे गए हैं, न ही आपको यह बताने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं कि वास्तव में क्या कहना है। पाठ आपको बाइबल के अंशों की बेहतर समझ प्राप्त करने में मदद करने के लिए लिखे गए हैं।

प्रत्येक पाठ को ऐतिहासिक संदर्भ, बाइबिल के संदर्भ और उस समय या उसके आसपास क्या हो रहा था, यह बताकर बाइबिल को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए बनाया गया है। कुछ सबक शब्दों के मूल अर्थ का उल्लेख करते हैं—मूल हिब्रू भाषा जिसमें पुराना नियम लिखा गया था, या ग्रीक जिसमें नया नियम मूल रूप से लिखा गया था। प्रत्येक पाठ में शिक्षक को शास्त्र में अन्य स्थानों पर ले जाने के लिए कई क्रॉस-संदर्भ हैं जो कहानी के लिए प्रासंगिक हैं, और सिखाए जा रहे संदेश के लिए भी। इस पाठ्यक्रम का लेखक धर्मशास्त्र लिखने का प्रयास नहीं कर रहा है, बल्कि पाठक को एक कहानी बताने और बाइबिल के भीतर अन्य शास्त्रों को उजागर करने का प्रयास कर रहा है ताकि पाठक निर्णय ले सके। बाइबिल का अर्थ बाइबिल द्वारा व्याख्या किया जाना है। यह अब तक लिखे गए साहित्य का सबसे जटिल टुकड़ा है, और इसमें 63,000 से अधिक क्रॉस-संदर्भ हैं।

1. सामग्री का अध्ययन करें।

पाठ से पहले, बाइबल के अंशों को पहले पढ़ें। फिर टिप्पणियों का अध्ययन करें और यदि आवश्यक हो तो अंश को कई बार फिर से पढ़ें। यदि संदर्भ एक से अधिक पुस्तकों या परिच्छेदों में विवरण देते हैं, तो सभी परिच्छेदों के संस्करणों से परिचित हों। जब आप अध्ययन करते हैं, तो संदर्भ के लिए हमेशा कुछ छंद पहले और कुछ छंद बाद में पढ़ें। देखें कि क्या ऐसा कुछ है जो भगवान आपको दिखाते हैं जो कहानी के बारे में आपके कथन को बढ़ाएगा।

सुसमाचारों को पढ़ाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि विभिन्न सुसमाचारों में कई विवरण हैं। प्रत्येक सुसमाचार के सभी अंशों को पढ़ें और उनका अध्ययन करें। नोट लें, जानकारी को इस तरह से मिलाएं जो आपके लिए मददगार हो। फिर उस सुसमाचार को चुनें जिससे आप उस विशेष कहानी को पढ़ाना पसंद करते हैं। प्रत्येक पाठ में एक अलग सुसमाचार हो सकता है जो अधिक जानकारी रखता है या एक अधिक स्पष्ट कथा प्रस्तुत करता है, और शिक्षक के रूप में यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस अंश को चुनें जो आपसे बात करता है।

इस शिक्षक मार्गदर्शिका में कई क्रॉस-संदर्भ हैं। ये आवश्यक रूप से छात्रों को पढ़ने के लिए नहीं हैं। क्रॉस-संदर्भ सामग्री के व्यक्तिगत अध्ययन के लिए शामिल किए गए हैं, और शिक्षक को सामग्री की गहरी समझ हासिल करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं ताकि वे छात्रों को बेहतर व्याख्या दे सकें।

2. केवल बाइबल से सिखाएँ।

पाठ पढ़ें और सामग्री को जानें, लेकिन हमेशा बाइबल से सिखाएँ। आपको बाइबल के अंश को शब्द-दर-शब्द पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बिना अर्थ बदले अपने दर्शकों के लिए इसकी व्याख्या कर सकते हैं। इसे शब्दों में व्यक्त करना संभव है कि आपके दर्शक परमेश्वर के वचन को बदले बिना समझेंगे। जब आप सीधे बाइबल से पढ़ाते हैं, तो यह पवित्र आत्मा को सीधे शिक्षक और छात्रों से बात करने की अनुमति देता है। यह पवित्र आत्मा को इस बात पर जोर देने का अवसर देता है कि परिच्छेद में क्या है जो श्रोता के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। परमेश्वर का वचन जीवित और शक्तिशाली है!



सबक सिखाएँ:

3. दृश्य की एक मानसिक तस्वीर बनाने में मदद करें।

इसकी कल्पना ऐसे करें जैसे आप वहां थे। यह सामग्री कहानी को इस तरह से बताने के लिए बनाई गई है जिससे श्रोता को यह कल्पना करने में मदद मिलती है कि अगर वे वहां होते तो कैसा होता। कहानी के बारे में विस्तार से बताएं, और उन्हें यह सोचने में मदद करें कि पात्र क्या सोच रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे और क्या महसूस कर रहे होंगे, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि क्या अनुमान लगाया जा सकता है, और शब्द में बताए गए निश्चित विवरणों के बीच अंतर करने के लिए सावधान रहें।

4. बहुत सारे सवाल पूछें।

पाठों को संवादात्मक होने के लिए डिज़ाइन किया गया है; वे एक व्याख्यान होने के लिए अभिप्रेत नहीं हैं। बहुत सारे प्रश्न पूछें, और अपने छात्रों को भी प्रश्न पूछने दें। सवाल और चर्चा श्रोताओं को सोचने पर मजबूर करती है।

आप अपने छात्रों को जानते हैं! अपने आप को सामग्री में सुझाए गए चर्चा अंशों तक सीमित न रखें। अपने स्वयं के प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, अपनी चर्चा शुरू करें। कहानी में उन चीजों पर चर्चा करें जो उन स्थितियों के लिए प्रासंगिक हों जिनके साथ आपके छात्र समझ सकते हैं। और ऐसे प्रश्न पूछें जो चर्चा को प्रोत्साहित करते हैं। बच्चों को परमेश्वर के वचन के अध्ययन में भाग लेने दें।

5. पात्रों से संबंधित।

याद रखें कि बाइबल वास्तविक लोगों के बारे में एक वास्तविक कहानी है जो वास्तविक काम कर रहे हैं। अपने श्रोताओं की मदद करें कि वे इसे एक दूर की कहानी के रूप में न देखें, बल्कि पात्रों वाली कहानी के रूप में देखें जिससे वे संबंधित हो सकें।

हर पाठ में यीशु को ढूँढना।

प्रत्येक पाठ "कहानी में यीशु" के साथ समाप्त होता है। सुसमाचार में दिए गए सबक यीशु की भविष्यवाणियों की ओर इशारा करेंगे। पुराने नियम के सबक यीशु की भविष्यवाणियों की ओर इशारा करेंगे। वह परमेश्वर का वचन है, और पूरी बाइबल का केंद्रीय केंद्र, विषय और अर्थ है। पहले कहानी सुनाएँ, और पाठ में कहानी के विषयों में यीशु को शामिल करें, यह सुनिश्चित करें कि आप जो कुछ भी सिखाते हैं उसका अंतिम ध्यान यीशु पर केंद्रित हो।

एकाधिक आयु स्तर:

यह सामग्री 3-99 वर्ष की आयु के लिए है। आप शिक्षक हैं। एक कहानी जिसे आप जानते हैं वह एक कहानी है जिसे आप बता सकते हैं। इन पाठों को किसी भी उम्र के स्तर पर अनुकूलित किया जा सकता है। यदि आप बहुत छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उन्हें कहानी इस तरह से बताएं कि वे समझ सकें। यदि आप बड़े बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उन्हें अधिक जानकारी दें। और यदि आप युवाओं को पढ़ा रहे हैं, तो आप कुछ क्रॉस-संदर्भित शास्त्रों को ला सकते हैं, और चर्चा कर सकते हैं कि वे कहानी से कैसे जुड़ते हैं। यदि आप वयस्कों को पढ़ाते हैं, तो सभी शास्त्रों को देखने और चर्चा करने के लिए इसे एक पूर्ण अध्ययन मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करें। हमेशा जो आपको लगता है कि वे समझ सकते हैं उससे थोड़ा ऊपर सिखाएं; आप अपने दर्शकों की समझ पर आश्चर्यचकित हो सकते हैं।



सबक सिखाएँ:

साप्ताहिक पाठ:

1. प्रत्येक सप्ताह की शुरुआत पिछले सप्ताह के सबक पर चर्चा करके करें। सवाल पूछें, देखें कि छात्रों को अंतिम पाठ से क्या याद है।
2. आपको इस गाइड में क्रम में सबक सिखाने की आवश्यकता नहीं है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप एक निश्चित विषय, एक निश्चित कहानी, या एक निश्चित समय सीमा सिखाना चाहते हैं या नहीं। यह आपकी कक्षा है।
3. प्रत्येक पाठ के बाद बच्चों को यीशु के पास ले जाने के लिए स्वतंत्र महसूस करें या यदि आप ऐसा करने के लिए पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित महसूस करते हैं। आप पाठ की प्रतिक्रिया से बता सकते हैं कि क्या वे तैयार हैं। और याद रखें, आप अपने छात्रों को जानते हैं!

स्मृति पद्य और प्रश्न:

पाठों को एक स्मृति पद्य और प्रश्नों के साथ तैयार किया गया है ताकि शिक्षक कक्षा में प्रदर्शित कर सकें। यदि आप चुनते हैं, तो आप छात्रों को एक "चर्च नोटबुक" लाने के लिए कह सकते हैं जहाँ वे हर सप्ताह स्मृति कविता लिख सकते हैं। शास्त्र को लिखने से निश्चित रूप से याद रखने में मदद मिलेगी, और इससे बच्चे को हर हफ्ते नोटबुक रखने और लाने की जिम्मेदारी सीखने में मदद मिलेगी।

शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन पृष्ठ पर प्रश्न देने का विकल्प भी चुन सकते हैं। बच्चे प्रश्नों को लिख सकते हैं और उत्तर खोजने के लिए उन्हें घर ले जा सकते हैं, या बस अपनी पुस्तक में उत्तर लिख सकते हैं। यह पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर करता है कि इन संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए।

रंगीन पृष्ठ:

प्रत्येक पाठ में एक काला और सफेद रंगीन पृष्ठ होता है। यदि आपके पास प्रतियां छापने की क्षमता है, तो स्वतंत्र रूप से प्रतियां बनाएं और इन्हें छोटे बच्चों को वितरित करें। यदि नहीं, तो आप उन्हें अपनी नोटबुक में अपने स्वयं के चित्र के साथ चित्रण को फिर से बनाने का विकल्प चुन सकते हैं।

रचनात्मक बनें!

बाइबिल की कई कहानियों पर काम किया जा सकता है। कई भजनों पर अमल किया जा सकता है। इसके साथ मजे करो! कहानी से नाटक या नाटक बनाने से बच्चों को कहानी याद रखने में मदद मिलती है। उन्हें नाटक तैयार करने में आपकी मदद करने दें। उन्हें पात्रों में अपनी व्याख्या करने दें। इसे मजेदार बनाएं और बाइबल को यादगार बनाएं!







जंगल में

मरकुस 1:12-13

मत्ती 4:1-11

लूका 4:1-13

यीशु का जीवन

मैथ्यू और ल्यूक सबसे अधिक विवरण देते हैं; वे अंतिम दो प्रलोभनों के क्रम को उलट देते हैं लेकिन एक ही विवरण देते हैं।

यीशु ने बपतिस्मा लिया था, और ल्यूक का कहना है कि वह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था।

इसके बाद वह तुरंत आत्मा द्वारा शैतान द्वारा प्रलोभित होने के लिए जंगल में ले जाया गया।

चर्चा करें: यीशु रेगिस्तान में है, रेगिस्तान में। यह वास्तव में गर्म हो सकता है। रात में ठंड लग सकती है।

वहाँ जंगली जानवर थे (मरकुस 1:14) और वह शायद कठोर भूमि पर सो रहा था।

उसने चालीस दिन और चालीस रात उपवास किया; वह भूखा था।

यीशु पूर्ण रूप से ईश्वर थे, लेकिन वे पूर्ण रूप से मनुष्य भी थे। (कुलुस्सियों 2:9; 1 तीमुथियुस 3:16)

उनके पास वे सभी मानवीय गुण थे जो हम करते हैं। वह थक गया था; उसे नींद की जरूरत थी। उसे भूख लगी;

उसे भोजन की आवश्यकता थी। देखें कि यीशु कैसे ध्यान केंद्रित करते हैं।

चर्चा करें: भूख लगने के बारे में बात करें। इतने लंबे समय तक न खाना कैसा होगा?

क्या आपने कभी उपवास किया है? कब तक?

क्या भूख लगने पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल होता है?

बाइबिल में तीन प्रकार के प्रलोभन सूचीबद्ध हैं, और हर प्रलोभन को इनमें से किसी एक श्रेणी में रखा जा सकता है।

क्योंकि संसार में जो कुछ भी है-शरीर की अभिलाषाएँ, आँखों की अभिलाषाएँ और जीवन का घमण्ड-

वह पिता की ओर से नहीं, वरन् संसार की ओर से है। 1. यूहन्ना 2:16

ध्यान दीजिए कि शैतान क्या कहता है,

"यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं"...

वह यीशु से साबित कराना चाहता है कि वह कौन है। वह पहले उसे शरीर की इच्छाओं के साथ लुभाता है।

यीशु को भूख लगी है, और शैतान उससे कहता है, "यदि तुम परमेश्वर के पुत्र हो, तो इस पत्थर को रोटी बनाने का आदेश दो।"

शैतान जानता है कि राज्य कैसे काम करता है: अधिकार और शब्दों से। यीशु के पास अपने शब्दों के साथ पत्थर

को आज्ञा देने का अधिकार है, लेकिन वह ऐसा नहीं करता है, क्योंकि यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो यह

चुनौती को साबित करने के लिए एक प्रतिक्रिया होगी। वह पहले से ही जानता था कि वह परमेश्वर का पुत्र है।

यीशु हर बार एक ही तरह से जवाब देते हैं:

यह लिखा गया है।

वह सत्य के वचन के साथ हर प्रलोभन का जवाब देता है।

उन्हें सत्य से पवित्र करो; तुम्हारा वचन सत्य है। यूहन्ना 17:17

यीशु ने जवाब दिया, यह लिखा जाता है, और उद्धरण व्यवस्थाविवरण 8:3 "मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं,

वरन् प्रभु के मुख से निकलने वाले प्रत्येक वचन से जीवित रहता है।





जंगल में

मरकुस 1:12-13

मत्ती 4:1-11

लूका 4:1-13

यीशु का जीवन

शैतान फिर कोशिश करता है।

शैतान यीशु को एक ऊँचे पहाड़ पर ले जाता है और उसे एक पल में दुनिया के सभी राज्य दिखाता है, शायद एक दर्शन में। उसने एक नज़र में सब कुछ देखा। इन राज्यों के बारे में बात करें; वे कैसे दिखते होंगे; इसका क्या अर्थ होगा। बड़े शहर, शक्तिशाली राजा, पृथ्वी के शासक।

शैतान के पास पृथ्वी पर यह शक्ति थी, जिसने उसे यीशु को यह पेशकश करने की क्षमता दी।

जब आदम और हवा को बगीचे में प्रलोभित किया गया और पाप किया गया, तो उन्होंने इस पृथ्वी पर अपने प्रभुत्व (भजन 115:16) को शैतान को इस दुनिया का देवता बना दिया (2 कुरिन्थियों 4:4) जिसे इस दुनिया का राजकुमार या शासक भी कहा जाता है। (यूहन्ना 12:31, 14:30)

यीशु शैतान के कार्यों को नष्ट करने के लिए पृथ्वी पर आया था (1 यूहन्ना 3:8)

और अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से उसने इस पृथ्वी पर शासन वापस जीता। (इफिसियों 1:19-22; 1 कुरिन्थियों 15:24-28) शैतान एक शॉर्टकट दे रहा था; यीशु बिना पीड़ा और बलिदान के शक्ति और महिमा प्राप्त कर सकता था। शैतान यीशु से कहता है कि अगर वह उसकी पूजा करेगा, तो वह उसे दुनिया की सारी शक्ति और महिमा देगा।

शैतान झूठा है। (यूहन्ना 8:44) यह संदेहपूर्ण है कि उसने कभी यीशु को वह शक्ति दी होगी जिसका उसने वादा किया था।

फिर भी, यीशु जानता था कि यदि वह शैतान के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता,

तो वह पापरहित बलिदान नहीं होता और संसार को मुक्त नहीं किया जाता। यह स्पष्ट रूप से पिता की इच्छा नहीं थी।

छात्रों से पूछिए-यीशु ने कैसी प्रतिक्रिया दी?

लिखा जाता है!

वह फिर उत्तर देता है, लिखा है, **कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की उपासना कर, और केवल उसी की उपासना कर।**

(व्यवस्थाविवरण 6:13; 4:19; 8:19; 10:20, 11:16; 30:17; 1 राजा 9:6; 2 इतिहास 7:19; यिर्मयाह 13:10; 25:6)

शैतान तब यीशु को मंदिर की चोटी पर लाता है; हमें यह नहीं बताया जाता कि वे वहाँ कैसे पहुँचे, शायद अलौकिक रूप से।

लेकिन वे स्पष्ट रूप से वहाँ हैं, क्योंकि शैतान यीशु को चुनौती देता है कि अगर वह परमेश्वर का पुत्र है तो वह खुद को इस मंदिर से नीचे फेंक दे। शैतान बाइबल जानता है, वह यहाँ भजन 91:11 को उद्धृत करता है, लेकिन शब्दों को तोड़ देता है।

शैतान ने 'अपने सभी तरीकों से आपकी रक्षा करें' और 'किसी भी समय' जोड़ा अगर यीशु ने मंदिर की छत से छलांग लगा दी होती, तो वह भगवान को लुभाने वाला होता, और भगवान को लुभाया नहीं जाता। (व्यवस्थाविवरण 6:16; प्रेरितों के काम 5:9)





जंगल में

चर्चा करें:

परमेश्वर को प्रलोभित करने का क्या अर्थ है?

कुछ ऐसे तरीके कौन-से हैं जिनसे हम परमेश्वर को प्रलोभित कर सकते हैं?

यदि आप किसी इमारत से कूदते हैं, आदि.. तो यह भगवान को लुभाने वाला होगा।

छात्रों से पूछिए-यीशु ने कैसी प्रतिक्रिया दी?

लिखा जाता है!

यह एक प्रलोभन था यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, और फिर यीशु ने जवाब दिया,

"यह लिखा है," आप प्रभु अपने परमेश्वर को परीक्षा में न डालें। "

इन तीन प्रलोभनों के बाद, हमें बताया जाता है कि शैतान एक समय के लिए यीशु को छोड़ देता है।

कहानी में यीशु



आने वाले राजा के रूप में यीशु को इसी का सामना करना होगा। उसके बपतिस्मा के समय ही परमेश्वर ने उसकी घोषणा की है, और अब वह बुराई से लड़ने के लिए जंगल में जा रहा है। वह अपने राज्य में आ रहा है; युद्ध करने और जीतने के लिए आ रहा है क्योंकि वह अपने शासन की तैयारी कर रहा है। लेकिन जीतने के लिए कोई भौतिक राज्य नहीं है। वह जंगल में इस्राएल के बच्चों के प्रलोभनों को प्रतिबिंबित कर रहा है। वे असफल हुए; वह बुराई पर विजयी हुआ।

हम इन प्रलोभनों को देख सकते हैं और सोच सकते हैं कि वे हमारे से अलग हैं। लेकिन हम पढ़ते हैं कि यीशु हमारी तरह ही प्रलोभित था।

इसलिये, चूँकि हमारे पास एक महान महायाजक है जो स्वर्ग में चढ़ गया है, परमेश्वर का पुत्र यीशु, आइए हम अपने विश्वास को दृढ़ता से बनाए रखें। क्योंकि हमारे पास ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी निर्बलताओं के प्रति सहानुभूति न रख सके, परन्तु हमारे पास ऐसा कोई है जो हमारी ही तरह हर प्रकार से प्रलोभित हुआ है, तौभी उसने पाप नहीं किया। इब्रानियों 4:14-15





ये प्रलोभन यीशु की पहचान पर हमला थे। शैतान के सभी प्रलोभन "यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं" से शुरू हुए। यीशु ने अभी-अभी बपतिस्मा लिया था। स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा कबूतर की तरह उतरा, और स्वर्ग से पिता की आवाज़ आई, "यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ। यीशु परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य का पुत्र था, पूर्ण रूप से परमेश्वर और पूर्ण रूप से मानव। उन्हें इस पर ध्यान देना था, और भगवान ने उनके बारे में जो कुछ कहा, उसकी सच्चाई पर ध्यान केंद्रित करना था। उसे अपने दिल में जानना था कि यह सच था।

क्योंकि यीशु जानता था कि वह कौन था, वह अपनी पहचान जानता था, और वह प्रलोभन के दौरान मजबूत खड़े होने में सक्षम था।

हमें अपनी पहचान जानने की जरूरत है ताकि हम प्रलोभन के समय भी मजबूत खड़े रह सकें।

अगर हम जानते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं, तो शैतान के खिलाफ परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए अपने अधिकार का उपयोग करना बहुत आसान है। यीशु में विश्वास करने वालों के रूप में, परमेश्वर कहता है कि हम कौन हैं?

धर्मो-एक उपहार के रूप में प्राप्त (रोमियों 5:17-18, 10:10; 2 कुरिन्थियों 5:21; इफिसियों 4:24; फिलिप्पियों 3:9)

परमेश्वर के बच्चे-यीशु के साथ उत्तराधिकारी, राजा के बच्चे! (यूहन्ना 1:12; रोमियों 8:14-17; 1 यूहन्ना 3:1)

चर्चा करें: यदि आप हर चीज के लिए भगवान पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं, तो आप अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पाने के लिए गलत काम करने के लिए प्रलोभित नहीं होंगे।

स्मृति वर्से

केवल यहोवा का भय मानिए और अपने पूरे मन से सच्चाई से उसकी सेवा कीजिए, क्योंकि सोचिए कि उसने आपके लिए कितने बड़े काम किए हैं।

1 शमूएल 12:24







Finding Jesus

is a curriculum designed to help children find Jesus in every story of the Bible. Because the Bible is one continuous story that leads to Jesus, He can be found from Genesis to Revelation. Finding Jesus is a Bible study designed for the teacher. This one-year Gospels volume includes 52 lessons which can be adapted to teach any age from 3-99. The instructor customizes the lesson for their audience, using only the Bible as a text. The teacher decides how to relay the information to their students, with regard to their background and level of education.

Jesus IS the Word of God.

***Jesus is the Alpha and the Omega, the beginning and the end.
He is woven like a scarlet thread throughout the tapestry of the Bible.***

VICTORIOUS LIGHT

About the Author



Laura Baca is a lifelong student of the Bible with a heart for reaching the next generation with the truth and love of God's Word. Over ten years ago, while teaching in children's church, she began to recognize a gap in the way that biblical truths were being communicated to young hearts. This sparked the idea to write a curriculum designed to help children


connect deeply with Scripture and find Jesus in every story of the Bible. Once her children were grown, she prayerfully developed this curriculum to speak to children across different cultures and backgrounds. In September 2024, a divine meeting with a Kenyan woman on a layover in Istanbul led to the formation

of Victorious Light, a non-profit organization established in 2025 with a desire to make this resource available to all. Laura is committed to offer materials freely to anyone, anywhere in the world. Through Victorious Light, children around the globe can encounter the transformative love of Jesus Christ through the stories of the Bible.

www.victoriouslight.org

Victorious Light 2025 All rights reserved.

ISBN 978-9914-36-065-3



9 789914 360653